

भारत शासन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का ज्ञाप क्रमांक F.No. 8-34/2017-FC दिनांक 30.10.2017 से वनग्राम माली-2 के पुनर्वास हेतु कक्ष क्र. आर.एफ.-154 में वन संरक्षण अधिनियम के तहत

285.700 हेक्टेयर वनभूमि व्यपवर्तन हेतु अधिरोपित शर्तों के पालन हेतु वचन पत्र

क्र.	अधिरोपित शर्त	सहमत	शर्तों का पालन प्रतिवेदन
1	The status of the diverted forest land will be revenue land;		
2	The User agency shall obtain the Environment Clearance as per the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986, if required under the said Act;	विस्थापन कार्य हेतु Environment Clearance की आवश्यकता नहीं है।	
3	The forest land vacated by the villagers inside the Satpura Tiger Reserve shall be afforested/developed as per the prescriptions of the management plan of the Tiger Reserve;	शर्त का पालन किया जावेगा।	
4.	State Govt. would be carry out relocation, social economic analysis which would be submitted to this Ministry;	शर्त का पालन किया जावेगा।	
5	100 % enumeration of the existing tree growth in the proposed site be carried out and all fully grown trees like Tamarind, Neem etc. which are part and parcel of the daily life of villagers are retained;	शर्त का पालन किया जावेगा।	
6	State Forest Department at appropriate level shall be made part of the body responsible for preparing detailed layout plan of the village so as to ensure that as far as possible naturally growing trees are retained along the roads, in the school, other government/public complexes, around the boundaries of the village, as natural groves;	शर्त का पालन किया जावेगा।	
7	Connectivity of the proposed residential site of the village to the metal road should be worked out in advance	शर्त का पालन किया जावेगा।	

D:\data\DM Branch C.M. Mishra\permission of the relocation village (STR)\New Microsoft Word Document.doc

8	Felling of trees on the forest land being diverted shall be reduced to the bare minimum and the trees should be felled under strict supervision of the State Forest Department;	कम वृक्षों वाला क्षेत्र चयनित किया गया है, जिसमें पोलाई एवं जलाऊ वृक्षों की संख्या ज्यादा है। फलदार वृक्षों को नहीं काटा जावेगा तथा कटाई का कार्य विभागीय तौर पर विभाग की कार्यआयोजना के अनुरूप कराया जावेगा वृक्षों की कटाई में व्यय होने वाली राशि का वहन सतपुड़ा टाइगर रिजर्व द्वारा किया जावेगा।
9	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourers after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Department Corporation or any other legal source of alternate fuel;	विस्थापन योजना में NTCA के दिशा निर्देश अनुसार जलाऊ वृक्षों को मेड़ों पर रोपण का प्रावधान किया जावेगा। विस्थापितों की विकास योजना में ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का प्रावधान किया जावेगा।
10	The boundary of the forest land being diverted shall be demarcated on ground at the project cost, using four feet high RCC Pillar inscribed with the serial number, DGPS coordinates, forward and backward bearings and distance from adjoining pillars etc;	विस्थापन योजना के निर्देशों के अनुरूप प्रावधान किया जावेगा। क्षेत्र का अस्थाई सीमांकन कर लिया गया है। क्षेत्र के हस्तांतरण के पश्चात RCC Pillars का निर्माण करा कर सीरियल नं., जी.पी.एस. निर्देशांक आदि डाले जावेगे।
11	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal and under no circumstances be transferred to any other agency, department or person;	वन भूमि का विस्थापन के अतिरिक्त अन्य कार्य में उपयोग नहीं किया जावेगा।
12	Layout plan of the proposal shall not be changed without the prior approval of the Central Government;	Layout Plan को केन्द्र सरकार की अनुमति के बिना नहीं बदला जावेगा।
13	State Government shall complete settlement of rights, in term of the Scheduled Tribes and Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006, if any, on the forest land to be diverted and submit the documentary evidence as prescribed by this Ministry in it's letter No. 11-9/1998-FC (pt.) dated 03.08.2009, read with letter 11-9/98-FC (pt.) dated 05.07.2013, in support there of;	प्रस्तावित भूमि पर Forest Rights Act, 2006, के तहत किसी प्रकार के भू-अधिकार दावे न तो लंबित है न ही प्रस्तावित है। (विस्थापन प्रस्ताव के साथ प्रमाण पत्र पृष्ठ क्रमांक 213-214 तक संलग्न किया गया है।)

14	The user agency shall submit the annual self compliance report in respect of the above conditions to the State Government, concerned Regional office and this Ministry by the end of March every year regularly:	शर्त का पालन किया जावेगा।
15	Any other conditions that the Regional office, Bhopal of this Ministry and State Govt. may stipulate, from time to time, in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife; and	क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा ऐसे कोई भी अनुबंध जारी नहीं किये गये। भविष्य में क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा इस तरह के अनुबंध, शर्त लगाई जाती है तो उपयोग कर्ता संस्था (सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, वन विभाग) को मान्य होगी।
16	Activity which may adversely impact the biodiversity of the area and adjacent forest area shall not be carried out;	शर्त का पालन किया जावेगा।
17	The State Government shall ensure compliance on the provisions of the all Acts, Rules, Regulations, Guidelines & Hon'ble Court (S) pertaining to this project, if any, for the time being in force, as applicable to the project.	उपयोग कर्ता संस्था (सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, वन विभाग) द्वारा समय-समय पर जारी अधिनियम, नियम, दिशा निर्देशों का विस्थापन के दौरान अनुपालन किया जावेगा।

उपरोक्त शर्त क्र. 1 से 17 तक का पालन करने हेतु क्रियान्वयन एजेंसी (सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, होशंगाबाद वन विभाग)
पूर्णतः सहमत एवं वचनबद्ध है।

(ए.के.मिश्रा)
"मा.व.से."

वनसंरक्षक एवं संयुक्त संचालक
सतपुड़ा टाइगर रिजर्व
होशंगाबाद